



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक:- 24.12.2020

थाना कोतवाली शामली

खाईबाडी करता एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 155/-रुपये नगद, पर्चा सद्दा, गत्ता, पेन्सिल बरामद:-

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा दिनांक 23.12.2020 की रात्रि समय 21.55 बजे फक्वारा चैक के पास नौकुआ रोड से खाईबाडी करते अभियुक्त इमरान पुत्र अब्दुल हकीम निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से 155/-रुपये नगद, पर्चा सद्दा, गत्ता, पेन्सिल बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 642/2020 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया है।

रास्ते पर आने-जाने वाली महिलाओं से छेड़छाड व फबतिया कसने वाला एक मन्चला गिरफ्तार:-

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा दिनांक 23.12.2020 को समय 17.00 बजे रास्ते पर आने-जाने वाली महिलाओं से छेड़छाड व फबतिया कसने वाले एक मन्चले आर्यन पुत्र नथूराम निवासी फेजपुर निनाना थाना व जनपद बागपत को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 640/20 धारा 294 भादवि पंजीकृत किया गया है।

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा वांछित पशुचोर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद :-

दिनांक 23.12.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी भवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा सूचना पर लोई नहर पुल के पास से वांछित पशु चोर को अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनांक 18.11.2020 को श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगमाल निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर से 02 भैस व 01 भैसा चोरी किये जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना बाबरी एवं थानाभवन की संयुक्त टीम का गठन किया गया था। टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुठभेड के दौरान घटना में लिप्त 04 अभियुक्तों क्रमशः 1. इन्तजार 2. रूस्तम उर्फ काला 3. नवाब अली व 4 मुनव्वर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। जबकि मौके से 02 अभियुक्त भाग गये थे। भागे गये अभियुक्तों में से आस मौहम्मद पुत्र नफीस को दिनांक 19.12.2020 को गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया। जबकि अभियुक्त बीर सैन फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. बीर सैन पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम बसैडा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध चाकू ।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- मु0अ0सं0 174/20 धारा 457,380,411 भादंवि थाना बाबरी शामिल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार थाना बाबरी जनपद शामिल ।
2. का0 सुमित थाना बाबरी जनपद शामिल ।
3. का0 कपिल थाना बाबरी जनपद शामिल ।



थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 10 लीटर अवैध रेक्टिफाईड शराब एवं मोटरसाईकिल बरामद :-

दिनांक 23.12.2020 की रात्रि पुलिस अधीक्षक शामिल श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामिल के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर मौहल्ला इस्लाम नगर तालाब पुलिया कैराना से 10 लीटर अवैध रेक्टिफाईड शराब एवं एक मोटरसाईकिल एचएफ डीलक्स रंग काला नम्बर UP19J / 3154 सहित एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । अभियुक्त का एक साथी मौके से भागने में सफल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कांबिंग की जा रही है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- सद्दाम पुत्र फुरकान निवासी मौहल्ला छडियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामिल ।

नाम व पता फरार अभियुक्त:-

1- जावेद पुत्र इकराम निवासी मौहल्ला छडियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामिल ।

बरामदगी का विवरण:-

1-अवैध रेक्टिफाईड शराब 10 लीटर ।

2- मोटरसाईकिल एचएफ डीलक्स रंग काला नम्बर UP19J / 3154

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1- उ0नि0 श्री राहुल कादयान थाना कैराना जनपद शामिली ।

2- का0 पवन थाना कैराना जनपद शामिली ।

3- का0 मुस्तफा थाना कैराना जनपद शामिली ।



खाईबाडी करते 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1567/-रुपये नगद, पर्चा सट्टा, गत्ता, पेन्सिल बरामद:-

थाना कैराना पुलिस द्वारा दिनांक 23.12.2020 की रात्रि समय 21.05 बजे ग्राम कण्डेला तालाब के पास से अभियुक्त 1. आकाश पुत्र जनेश्वर, 2. श्रवण पुत्र कंवरपाल निवासीगण ग्राम कण्डेला थाना कैराना जनपद शामिली को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से 1567 / - रुपये नगद, पर्चा सट्टा, गत्ता, पेन्सिल बरामद हुए है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर मु0अ0सं0 571/2020 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया है ।